


टेनेसी और बिग सैंडी नदी क्षेत्र

जलस्रोत और प्रभावित सीमाएं	प्रभावित इलाके	प्रदूषक तत्व	प्रजातियां	सलाह/प्रतिबंध
नॉक्स क्रीक (वीए/केवाई स्टेट लाइन की ओर बहाव की दिशा से वीए/डब्ल्यूवी स्टेट लाइन के पास इसके हेडवाटर्स तक, जिसमें इसकी सहायक नदियाँ भी शामिल हैं। नदी के ये हिस्से ~89 मील तक फैले हैं)।	बुकनन काउंटी	PCBs	गोल्डन रेडहॉर्स सकर 	न खाएं
		PCBs	स्मॉलमाउथ बास 	न खाएं
		PCBs	रॉक बास 	न खाएं
		PCBs	नॉर्दर्न हॉग्सकर 	न खाएं
		PCBs	चैनल कैटफिश 	न खाएं
		PCBs	रेडहॉर्स सकर 	न खाएं
		PCBs	क्रीक चब 	न खाएं
		PCBs	सभी अन्य प्रजातियां	महीने में दो बार से ज्यादा न खाएं
लेविसा फ़ोर्क नदी (गुंडी में स्लेट क्रीक के संगम से राज्य रेखा तक ~14 मील)।	बुकनन काउंटी	PCBs	सभी प्रजातियां	न खाएं
लेविसा फ़ोर्क नदी (स्लेट क्रीक अपस्ट्रीम के साथ संगम से लेकर ऊपर की ओर कॉन्ट्रारी क्रीक (रूट 460 और रूट 680 का चौराहा) के साथ संगम तक, जिसमें इसकी सहायक नदी गार्डन क्रीक भी शामिल है, जो गार्डन क्रीक की राइट फोर्क के साथ संगम (रूट 624 और रूट 632 का चौराहा)। नदी के ये हिस्से ~18 मील तक फैले हैं).	बुकनन काउंटी	PCBs	सभी प्रजातियां	महीने में दो बार से ज्यादा न खाएं
गेस्ट नदी (रूट 23 एस्सेर्विले से नीचे की ओर क्लिंच नदी के संगम तक इसकी सहायक नदी बियर क्रीक सहित येलो क्रीक के संगम तक। नदी के ये हिस्से ~23 मील तक फैले हैं)।	वाइस काउंटी, नॉर्टन शहर, स्कॉट काउंटी, रसल काउंटी	PCBs	कार्प 	महीने में दो बार से ज्यादा न खाएं
		PCBs	चब नदी (हॉर्नीहेड) 	
		PCBs	स्टोनरोलर (हॉर्नीहेड) 	
स्टॉक क्रीक (नेचुरल टनल के ऊपर रूट 650 ब्रिज से नीचे की ओर ~5 मील की दूरी पर क्लिंचपोर्ट के पास क्लिंच नदी के संगम तक)	स्कॉट काउंटी	PCBs	ब्राउन ट्राउट 	महीने में दो बार से ज्यादा न खाएं
		PCBs	रेनबो ट्राउट 	
		PCBs	व्हाइट सकर 	
वोल्फ़ क्रीक (एबिंगडन के पास रूट 670 से नीचे की ओर ~3 मील दूर ग्रीन स्प्रिंग के पास रूट 75 तक)	वॉशिंगटन काउंटी	PCBs	कार्प 	महीने में दो बार से ज्यादा न खाएं
		PCBs	नॉर्दर्न हॉग्सकर 	
बीवर क्रीक (बीवर क्रीक डैम से नीचे की ओर ~10 मील ब्रिस्टल सिटी के भीतर वीए/टीएन राज्य लाइन तक, जिसमें इसकी सहायक नदी लिटिल क्रीक भी शामिल है)।	वॉशिंगटन काउंटी, ब्रिस्टल शहर	PCBs	कार्प 	न खाएं
		PCBs	लार्जमाउथ बास 	न खाएं
		PCBs	स्मॉलमाउथ बास 	न खाएं
		PCBs	सभी अन्य प्रजातियां	भोजन के तौर पर प्रति माह दो बार से अधिक नहीं
फलैनगन रिज़रवॉयर (क्रेन्सनेस्ट नदी की शाखा, हाईवे 83 ब्रिज तक ऊपर की ओर और पाउंड नदी की शाखा, रूट 621 (लोअर जॉर्जस फोर्क होलो) ब्रिज तक ऊपर की ओर)	डिकेंसन काउंटी	PCBs	चैनल कैटफिश 	महीने में दो बार से ज्यादा न खाएं
		PCBs	लार्जमाउथ बास 	
		PCBs	वॉलआई 	न खाएं
नॉर्थ फ़ोर्क होल्स्टन नदी (साल्टविले से ~ 84 मील वर्जीनिया/टेनेसी राज्य की सीमा तक)	स्मिथ काउंटी, वॉशिंगटन काउंटी, स्कॉट काउंटी	पारा, PCBs	सभी प्रजातियां	न खाएं किसी भी मछली को खाने की मनाही है। मछली को पकड़ना और उसे वापस छोड़ देने की अनुमति है।
बिग चेरी जलाशय (पूरा जलाशय ~ 106 एकड़)	वाइज़ काउंटी	मरक्यूरी	लार्जमाउथ बास 	महीने में दो बार से ज्यादा न खाएं
विटेन झील (~ 54 एकड़ में फैली पूरी झील)	टेज़वेल काउंटी	मरक्यूरी	लार्जमाउथ बास 	महीने में दो बार से ज्यादा न खाएं

*एक मछली में आठ आउंस (आधा पाउंड) का वज़न होता है, जिसे एक बार के भोजन में माना जाता है।

मछली खाने से संबंधित सलाहों को साल में एक बार रिव्यू किया जाता है और इनमें ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए जाते हैं। मछली खाने से संबंधित परामर्श के तहत तय जलाशयों से पकड़ी गई मछलियों की कुछ प्रजातियों को खाने के संबंध में सलाह दी गई हैं। परामर्श में बताए गए दिशानिर्देश का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि मछली में मौजूद प्रदूषक तत्वों के संपर्क में आने से बचा जा सके। मछली में मौजूद प्रदूषक तत्वों के संपर्क में आने से मानव स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम के बारे में ज्यादा प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, [Virginia Department of Health's Toxicology Program](#) से (804) 864-8182 पर संपर्क करें। नमूने के तौर पर जांचे गए जलस्रोतों या मछली के उत्तक के नमूने की जांच की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [Virginia Department of Environmental Quality](#) से संपर्क करें।